# **Akashdeep Metal Industries Limited**

CIN:L28998DL1983PLC017150

**Registered Office** 

14, Dayanand Vihar, Backside Ground Floor, Vikas Marg Ext, Delhi-110092 Tel: +91-11-43011038

> Email: <u>info.akashdeep14@gmail.com</u> Website: www.akashdeepmetal.in

Date: 03.02.2021

To,
Deputy Manager
Department of Corporate Services,
BSE Limited, Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400001
Scrip Code – 538778

**Sub: Publication of Notice of Board Meeting** 

Dear Sir,

In compliance with the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published in "FINANCIAL EXPRESS" and "JANSATTA" on Wednesday, February 03, 2021 informing about the Board Meeting scheduled to be held on Thursday, February 11, 2021.

Kindly take the same on your record.

Thanking You
For Akashdeep Metal Industries Limited
Sd/Kesha Ankit Choksi
Company Secretary & Compliance Officer
M. No:- A47195
Contact No: 8879683477

(यूजीसी) की राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा

(नेट) आयोजित करेगी। ऑनलाइन

कृते यू.पी. होटल्स लिमिटेड

सवारे ट्रेड एन्टरप्राइजेज लिमिटेड के लि

नरेन्दर कुमार मक्क

(DIN:00026857

प्रकाश चन्द्र प्रर्ष्ट

(कम्पनी सचिव

यू.पी. होटल्स लिमिटेड

सीआईएन : L55101DL1961PLCO17307 पंजीकृत कार्यालय : 1101, सूर्य किरण, 19, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23722596-8 फैक्स : 011-23312990

ईमेल : clarkssuryakiran@yahoo.co.in, वेबसाइट : www.hotelclarks.com

सूचना भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं 3

के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथ

नौमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन करने के लिए कम्पनी के निदेशव

यह सुचना स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट

सवारे ट्रेड एन्टरप्राइजेज लिमिटेड

CIN: L51909DL1990PLC040761

पंजी. कार्यालयः 3रा तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008

टेली.: 011-25747696/25751934/36, फैक्स: 011-25751937/38

www.savaretrade.com, ईमेलः narendermakkar@yahoo.com

स्टॉक एक्सचैंज के साथ सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पिठत

विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवा

12.02.2021 को 4.00 बजे अप. को प्लॉट सं. 6, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया गुरुग्राम पर आयोजित की जायेगी जिसमें

अन्य विषयों के साथ 31.12.2020 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के लिये संगत अवधि के लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्ष

पुनः कम्पनी की प्रतिभृतियों में कारोबार के लिये, कम्पनी के शेयरों में डीलिंग हेतु इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिये संहिता व

अनुसार ट्रेडिंग विण्डो 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा सार्वजनिक किये जा

कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट http://www.savaretrade.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइ

मण्डल की बैठक बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को आयोजित की जायेगी।

www.hotelclarks.com पर भी उपलब्ध है।

अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

https://www.cse-india.com से भी एक्सेस की जा सकती है।

के 48 घंटे की समाप्ति तक बंद रहेगी।

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 02.02.2021

अजय कुमार जैन

कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 02.02.2021

जनसत्ता ब्यूरो

(सीबीएसई) ने दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रम की मंगलवार को घोषणा कर दी। परीक्षाएं चार मई से शुरू होगी। कार्यक्रम के मुताबिक दसवीं कक्षा के लिए परीक्षा सात जून को खत्म हो जाएगी, जबिक बारहवीं की परीक्षा का समापन 10 जून को होगा। बोर्ड ने तीन महीने पहले परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की है जिससे विद्यार्थियों को तैयारी का पर्याप्त समय मिल जाएगा।

आम तौर पर प्रायोगिक परीक्षाएं जनवरी में होती हैं और लिखित परीक्षाएं फरवरी में शुरू होती हैं और यह मार्च में खत्म हो जाती

हैं। इस बार कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार परीक्षा में देरी हुई है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज की ओर से जारी सूचना के मृताबिक दोनों कक्षाओं की महत्त्वपर्ण परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं के बीच में पर्याप्त समय दिया गया है। इससे विद्यार्थियों के ऊपर दबाव कम होगा और उन्हें तैयारी के लिए पुरा समय मिलेगा।

भारद्वाज के मुताबिक इस साल बारहवीं की परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। सुबह की पाली की परीक्षा की शुरुआत सुबह साढे दस बजे से होगी जबकि दूसरी पाली में परीक्षा दोपहर को ढाई बजे से शुरू होगी। दुसरी पाली की परीक्षा सिर्फ चार दिन होगी। कोरोना महामारी को देखते हए पहली पाली में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को दूसरी पाली में ड्यूटी नहीं दी जाएगी।

## यूजीसी नेट का आयोजन मई में होगा: निशंक

आवे दन

फॉर्म दो

फरवरी

2021 से

उपलब्ध

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 2 फरवरी।

राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) मई में कनिष्ठ प्राध्यापक छात्रवृत्ति और के प्राध्यापक विश्वविद्यालय आयोग अनुदान

**GOLKONDA ALUMINIUM EXTRUSIONS LIMITED** (Formerly known as Alumeco India Extrusion Limited) Regd. Office: A-2/78-B. Keshav Puram, New Delhi - 110035, India

Pursuant to Regulation 29 and 47(1)(a) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 12th February, 2021 at 05:00 P.M. to consider and take on record, inter alia, the standalone unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020.

The Intimation is also available on the website of the company (www.gael.co.in) and on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) for & on behalf of Golkonda Aluminium Extrusions Limited

Sd/-Anand Bharti Place: New Delhi Whole-time Director Date: 02.02.2021 DIN: 02469989

होंगे और दो मार्च 2021 तक आवेदन किए जा सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को ट्वीट कर यूजीसी नेट 2021 की तारीखों का एलान किया।



सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यक्ताए) विनियम 2015 के विनियम 29 के साथ पठनीय विनियम 47 के अनुसरण में एतदवारा सूचित किया जाता है कि राइट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2021, बुधवार को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीनों के अनंकेक्षित समेकित एवं रटेंडअलोन वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा।

इस संबंध में कृपया ध्यान दें कि सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग विनियम, 2015 ("द कोड" के अनुरूप निर्मित कंपनी की आधरण सहिता के अनुसरण में सहिता में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए कंपनी ने शेयरों के कारोबार के लिए ट्रेडिंग विंडो शुक्रवार 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम की घोषणा की तिथि से 48 घंटों तक पहले ही बंद कर दी गई है. यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.rites.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते राइट्स लिमिटेड आशीष श्रीवास्तव दिनांक : 2 फरवरी, 2021 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकार

एण्टरप्राईजेंज पंजीकृत कार्यालय– ४अ, हन्सालय, १५, बाराखम्बा रोड नई दिल्ली– ११०००१

CIN: L51909DL1933PLC009509 Website-www.sirshadilal.com | E-mail: udsm\_shamli@sirshadilal.com

रतदद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एल. ओ. डी. आर.) अधिनियम 2015 के नियम 29

(1)(ए) के अनुसार सूचित किया जाता है कि कम्पनी के संचालन मंडल की बैठक दिनॉक 6 फरवरी 2021 को होनी निश्चित हुई है, जिसमें 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त हुये त्रैमासिक एंव नौ माह के अपरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जायेगा । इसके अतिरिक्त कम्पनी के अधिकारी / संचालको एवं उनके रिश्तेदारों के लिये कम्पनी की प्रतिभृतियों की खरीद फरोख्त कम्पनी के वित्तीय परिणामों के प्रकाशित होने के 48 घंटे तक बन्द रहेगी। कृते सर शादी लाल एण्टरप्राईजेज लिमिटेड

स्टारलिट पावर सिस्टम्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः ए-1/51, एलजीएफ सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029

CIN- L37200DL2008PLC174911 ई-मेलः info@starlitgroup.net वेक्साइटः http://www.starlitpower.com फोन: +91 11 26102570, 46027970, 46037870

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभृति और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29(1)(ए) के अनुपालन में कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक, गुरूवार, 11 फरवरी, 2021 को ए-1/20, एलजीएफ सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगें।

उक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट http://www.starlitpower.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट https://www.bseindia.com पर देखी जा

'कंपनी के निदेशकों, प्रवर्तकों, विनिर्दिष्ट कर्मचारियों तथा संबंधित व्यक्तियों द्वार ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिये स्टारलिट संहिता और कंपनी की सामग्री सहायक' के अनुपालन में ट्रेडिंग विण्डो बंद रहने की अवधि 1 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ तथा उपरोक्त परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी।

कृते स्टारिलट पावर सिस्टम्स लिमिटेड

कंपनी सचिव

नई दिल्ली 02.02.2021

एम न. - 55438

Akashdeep Metal Industries Limited CIN: L28998DL1983PLC017150 Registered Office: 14, Dayanand Vihar, Backside Ground Floor,

Vikas Marg Extn., East Delhi -110092 Tel: +91-11-43011038, **Email**: info.akashdeep14@gmail.com **Website**: www.akashdeepmetal.in

NOTICE Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, February 11, 2021 at 14, Dayanand Vihar, Backside, Ground Floor, Vikas Marg Extn Delhi-110092, inter alia to consider and approve, the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for

the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2020 (This Notice is also available on the website of the Stock Exchange where the Shares of the Company are listed i.e., www.bseindia.com

and on Company's website www.akashdeepmetal.in) For Akashdeep Metal Industries Limited

Place: Delhi Date: 02/02/2021

Rajesh Gupta Managing Director DIN: 000060



## S CHAND AND COMPANY LIMITED

Registered Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044: Email: investors@schandgroup.com S.CHAND Website: www.schandgroup.com: Phone: +91 11 49731800 Fax: +91 11 49731801: CIN: L22219DL1970PLC005400

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, February 12, 2021 to, inter-alia, consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter and

nine months ended December 31, 2020. The said information is also available on the Company's website at www.schandgroup.com and on the website of the Stock Exchanges at

www.bseindia.com and www.nseindia.com

Place: New Delhi

For S Chand And Company Limited

CIN: L74899DL1987PLC030092

Jagdeep Singh

नरेन्दर कुमार मक्क

(DIN:00026857

कम्पनी सचिव

Company Secretary & Compliance Officer Dated: February 02, 2021



प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

समेकित

(ईपीएस डैटा छोडकर रु. लाखों में

## फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 3रा तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008 टेली.: (91-11) 25747696, 2575 1934/35/36, फैक्स: (91-11) 2575 1937/38 र्डमेल: narendermakkar@vahoo.com

स्टॉक एक्सचैंज के साथ सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47

के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंड की एक बैठक शुक्रवार, 12.2.2021 को 5.00 बजे अप. में प्लॉट नं. 6, सेक्टर 32, इंस्टीच्यूशनल एरिया गुरुग्राम में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ तत्स्थानीय अवधि के लिये ऑडिटरों के सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ 31.12.2020 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

पनः कम्पनी की प्रतिभितयों में इन्सायडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिये संहिता के अनुसार कम्पनी की शेयरे में कारोबार के लिये टेडिंग विण्डो 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की सार्वजनिक घोषणा के बाद 48 घंटे की समाप्ति तक बंद रहेंगे।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट http://www.phoenixindia.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचैंज

की वेबसाईट https://www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड के लिये

स्थानः नई दिल्ली

के 48 घंटे तक बंद रहेंगे।

दिनांक: 02.02.2021

स्थान : नई दिल्ली

नई दिल्ली

सोहन लाल

(प्रबंध निदेशक)

**DIN:** 3322557

तिथि: 2.2.2021

रुद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1992PLC050142 पंजीकृत कार्यालय : 820, अन्तरिक्ष भवन, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 ई-मेल : secretarial@replurbanplanners.com वेबसाइट: www.rep.global

सेवी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 29 के अनुपालन

में एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 31 दिसम्बर, 2020 के समाप्त तिमाही तथा नौमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये

उपरोक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.repl.global तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात् www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

पुनः सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 तथा ''इन्याडरों'' द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिये आचार संहिता'' के अनुपालन में कम्पनी की प्रतिभृतिये में कारोबार के लिये टेडिंग विण्डो 1 जरवरी, 2021 से बंद है एवं परिणामों की घोषणा/प्रकाशन

रुद्राभिषेक एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिये

विकास गुप्ता

कम्पनी सचिव

दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित

नई दिल्ली, 2 फरवरी।

शिक्षा बोर्ड केंद्रीय माध्यमिक

मुंबई, २ फरवरी (भाषा)।

In the matter of OA NO.: 1058/2019
ICICI BANK LTD Applicant
Vs. MAHIPAL GOSWAMI & ANR Defendent

o. -1, Mahipal Goswami Slo. Sh. Dhanpat Goswami Rlo. G-5, iali No. 39, Mahendra Park, Adarsh Nagar, Dehi -110(33 -2 Rakesh Kumar Sio. Sh. Gulshan Kumar Rio. A-1842, -43, ahangirpuri, Bhalswa, Jahangirpuri, Delhi -110033

Whereas the above named applicant has instituted a case against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal on 08.02.2021 at 10.30A.M.

lake notice that in case of your failure to appear on the above nentioned day before this Tribunal, the case will be heard

and decided in your absence.

Due to ongoing Pandemic situation, all the matters will be taken up through Video Conferencing and for that purpose:
(I)All the Advocats Litigants shall download the Cisco Weber, application/ software; (i) Meeting ID and Password for the next date of hearing qua cases to be taken by RegistrantRecovery Officer-land Recovery Officer-land be available one day prior to the next date of DRT Official Portal i.e. dr.gov.in under the Public Notice Head. (iii) In any exidency gua that, the Advocated Recovery can contact the

Given under my hand and seal of this Tribunal on this the 18th by of Dec. 2020.

सूरज इण्डस्ट्रीज़ लि.

CIN: L26943HP1992PLC016791

वेबसाइट-www.surajindustries.org

षंजी. कार्याः प्लॉट नं. २, फेज ३, संसारपुर टेरेस,

जिला. कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-173212 कॉरपोरेट कार्यालयः एफ-32 / 3, प्रथम तल, ओखला,

इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2 , नई दिल्ली-110020

संपर्क सूत्र: 01970-256414

एतद् द्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी

(सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा)

विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित

विनियम 33 और 47 के अनुपालन में मैसर्स

सरज डण्डस्टीज लि. के निदेशक मण्डल की

बैठक गुरूवार, 04 फरवरी, 2021 को दोपहर

02.30 बजे एफ-32/3, प्रथम तल, ओखला

औद्योगिक क्षेत्र, फेज-॥, नई दिल्ली

-110020 में आयोजित की जाएगी जिसमें 31

दिसंबर, 2020 को कम्पनी के समाप्त तिमाही

एवं नौमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों

पर विचार तथा अनुमोदन किया जायेगा। अधिक

जानकारी के लिए कृपया हमारी कम्पनी की

वेबसाइट www.surajindustries.org अथवा स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com

Orchid Pharma Ltd.

Pharmaceuticals Limited)

CIN No.: L24222TN1992PLC022994

Regd. Office: 'Orchid Towers', No.313, Valluvar kottam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600034, India.

Tel.: (91) - 44 - 28211000; Fax: (91) - 44 - 28211002

E-mail: corporate@orchidpharma.com Website: www.orchidoharma.com

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, as amended from time to time, that a meeting of the Board of

Directors of Orchid Pharma Limited is scheduled to be held on Tuesday,

February 09, 2021, inter-alia, to consider,

approve and take on record the Unaudited Standalone and Consolidated financial

results of the Company for the quarter

A copy of the said notice shall also be

available on Company's website at

www.orchidpharma.com and also on Stock

Exchange websites - www.nseindia.com

DHANUKA GROUP COMPANY

JAUSS POLYMERS LIMITED

CIN: L74899HR1987PLC066065

Registered Office: Plot No. - 51, Roz Ka

Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Gurugram 122103 (Haryana)

Website: www.jausspolymers.com,

Email.: response@jausspolymers.com

Tele. No.: 0120-7195236-239. NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, please be informed that Meeting of Board of Director of the Company will be held at 801-802, 8th Floor, Tower-2, Assotech Business Cresterra, Plot No. 22,

Sector 135, Noida-201301 on Thursday, the 11th day of February, 2021 inter-alia, to consider

To consider and approve the standalone and

consolidated Un-audited Financial Results

for the quarter and nine months ended on

To consider and take note of Limited review

report of Statutory Auditor on standalone

and consolidated Un-audited Financial

Results of the Company for the guarter and nine months ended on 31st December,

To consider and approve any other agenda

Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading)

Regulations, 2015 and as per the BSE circular LIST/COMP/O1/2019-20 dated April 2, 2019,

the Trading Window for the securities of the

Company has already been closed from January

1, 2021 till 48 hour after the declaration of un-

and approve the following:

31st December, 2020.

item as place on Board.

audited Financial Results.

By order of the Board

Company Secretary

For Orchid Pharma Limited

ended December 31, 2020.

and www.bseindia.com

Date: February 02, 2021

Place: Chennai

(Formerly Orchid Chemicals &

कृते सुरज इण्डस्टीज लि.

भानुमति रामाचन्द्रण

(कम्पनी सचिव)

पर जाएं।

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 29.01.2021

te/Lifigants can contact the

By Order of this Tribunal

पार्थो की जमानत अर्जी पर सुनवाई स्थगित ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के पूर्व मुख्य कार्यकारी बंबई हाई कोर्ट ने टेलीविजन अधिकारी पार्थी दासगुप्ता की रेटिंग पाइंट (टीआरपी) के कथित अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नौ

फर्जी घोटाले में आरोपी ब्रॉडकास्ट फरवरी के लिए स्थगित कर दी। BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - III, DELHI 4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING. PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001. Notice under Section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1933 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1983 In the matter of रोडवेज इंडिया लिमिटेड

CIN: L63090DL1967PLC319212 पंजीकत कार्यालय : प्लॉट नं, 53-ए/8, रामा रोड इंग्डस्ट्रीअल एरिया, नई दिल्ली-110015 ई-मेल आईडी : corporate@roadwaysindia.com वेयसाइट : www.roadwaysindia.com फोन न.: 011-47192065, पीवस नं : 011-25815456

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की अगली बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को अप. 3:30 बजे आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साध-साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तीसरी तिमाही / नौ माह के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।

यह सूचना कम्पनी की www.roadwaysindia.com और स्टॉक एक्सबेंज की वेबसाइट www.cse-india.com एवं www.msei.in पर भी उपलब्ध है। बोर्ड के आदेशानुसार

दिनांक : 02 पारवरी, 2021 स्थान : नई दिल्ली हिमानी गुसाई कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

JMIC Ludhiana CNR NO: PBLD03-080581-2018 Next date: 01-03-2021 M/s Uk Crop Sciences Private Limited Vs. Vivek Rai

Publication Issued To: Vivek Rai :- Prop Of Raj

COURT NOTICE

Brothers Gomadih Lalganj Dist. Azamgarh Uttar whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the above named accused /(accused persons) can't be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 01-03-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, given under my hand and the seal of this court

for details logon to: https://highcourtchd.gov.in /?trs=district\_notice&district=Ludhiana JMIC Ludhiana

## हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

विज्ञापन स. 1/एनटी/आर/2021 रोजगार सूचना दिनांक: 02.02.2021 विभिन्न शिक्षणेतर पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं आवेदन पत्र और अन्य संबंधित विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cuh.ac.in पर उपलब्ध हैं। इस संबंध में अन्य जानकारी केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में दिनांक 03-03-2021 को सायं 05:00 बजे तक पहुँच जाने

कुलसचिव

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) रजिस्टेर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381) परिशिष्ट-IV-A

स्थान : नई दिल्ली

दिनॉक: 01.02.2021

नियम 8(6) के परन्तुक को देखें अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एंव पुनर्गठन तथा प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्तें व संपठित नियम 8( 6 ) के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी विक्रय सुचना आमजन को साधारणतया तथा ऋणी. सहऋणी व जमानतदार को विशेष रूप से एतदद्वारा सचित किया जाता है कि निम्नलिखित बन्धक अचल सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा एय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ( ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ) के नाम से ज्ञात जो कि आगे एयू एस एफ बी सन्दर्भित किया जावेगा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था को ''जैसे है जहाँ है ''एवं जो भी है जैसा भी है के आधार पर ई-नीलोमी द्वारा निम्न तालिका में दर्शित बकाया राशि एवं भविष्य का ब्याज, लागत व शल्क की वसली हेत विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है । यह सचित किया जाता है कि ई-नीलामी वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से आयोजित की जावेगी।

ऋण खाता संख्या एवं ऋणी, सह-ऋणी बंधककर्त्ता का नाम	13(2) मांग नोटिस की दिनांक व राशि एवं भौतिक कब्जे की दिनांक एवं बकाया राशि	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य ईएमडी राशि एवं निविदा वृद्धि राशि (राशि रू. में)	ई-नीलामी की तिथि व समय एवं ईएमडी जमा की अंतिम राशि बोलि और दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण का स्थान, निरीक्षण तिथि
ऋण खाता संख्या (1821210221270002) 1. मैसर्स ए के फ़ूद्स (ऋणी) 2. ललित नेहरू (जमानतदार एवं बंधककर्ता) 3. श्रीमती आरती नेहरू (जमानतदार)	(ऋण खाता संख्या 1821210221270002 के लिए) 27 जनवरी 2020 र29,49,073/- (रू. उनतीस लाख उनपचास हजार तहत्तर मात्र) सम्पति पर भौतिक कब्जा दिनांक 20 जनवरी 2021 को किया गया। र 34,54,098/- (रू. बौतीस लाख बौवन हजार अठानवे मात्र) दिनांक 20 जनवरी 2021 तक	श्री ललित नेहरू के स्वामित्व की सम्पति के सभी अभिन्न अंग स्थित सम्पत्ति एंटायर बिल्ड अप व्यवसायिक दुकान/सम्पत्ति वैरिंग नं. 664 का प्रथम तल, ब्लॉक-सी, क्षेत्रफल: 150 वर्ग फीट (13.90 वर्ग मीटर) नई सब्जी मण्डी, आजादपुर, दिल्ली पर स्थित है।	आरक्षित मृल्य : क. 30,00,000/- (क. तीस लाख मात्र ) ईएमडी : क. 3,00,000/- (क. तीन लाख मात्र ) इंक्रीमेंटल राशि : क. 50,000/- (कपये पचास हजार मात्र )	10 मार्च 2021 दोपहर 2:00 बजे से सायं 04:00 बजे ( 5 मिनट के असिमित विस्तार के साथ ) बोलि जमा कराने की अंतिम तिथि : 9 मार्च 2021 को सायं 5 बजे तक एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, 801-804, आठवा फ्लोर, रूट टॉवर, जिला सेन्टर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 ई-मेल : rakesh.jain1@aubank.in निरीक्षण दिनांक : 25 एवं 26 फरवरी 2021

यह सूचना-पत्र प्रतिभृति हित ( प्रवर्तन ) नियम 8( 6 ) के अन्तर्गत ऋणी / बंधककर्त्ता के लिए सचित 30 दिवसीय विक्रय सचना-पत्र भी है ।

ई-नीलामी बिकी के नियम और शर्ते: -1. बंधक परिसंपत्ति की ई-नीलामी बिक्री AUSFB सुरक्षित लेनदार द्वारा'' जैसा है, जहां है, ''जैसा है वैसा, ''जो कुछ भी है और '' नो रिकोर्स के आधार पर की जायेगी उक्तसंपत्ति पर कोई ज्ञात प्रभार नहीं है।2 ऑनलाइन ई-नीलामी की बिक्री में भाग लेने के लिए, बोली दस्तावेज, पैन कार्ड की प्रतियां, कंपनी और फोटो आईडी, कम्पनी के मामले में बोर्ड रिजोल्यूसन, पते का प्रमाण पत्र ईएमडी के साथ, जो आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से देय है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के MSME AUCTION POOL ACCOUNT के नाम, चालू खाता संख्या 1921201121711599 AU SMALL FINANCE BANK Limited पांचवीं एवं छठी मंजिल, सनी बिग जंक्शन एसटीसी खसरा नंबर 64 से 67, ग्राम सुखईपुरा, न्यू आतिश मार्केट जयपुर 302020, IFSC कोड: AUBL0002011 में जमा करना आवश्यक है, एक बार ऑनलाइन बोली सबमिट करने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। आगे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी ईएमडी को निम्नलिखित ईमेल आईडी यानी rakesh.jain1@aubank.in पर रह किए गए चेक की कॉपी के साथ आरटीजीएस / एनईएफटी की यूटीआर / रेफरेन्स नंबर भेजने की आवश्यकता होगी। 3. सभी इच्छुक प्रतिभागियों / बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि ई-नीलामी की बिक्री की कार्यवाही में भाग लेने, जानकारी और शर्तों के लिए वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net & https://www.aubank.in/bank-auction अवश्य देखें। और अधिक जानकारी के लिए श्री राकेश जैन से संपर्क करें : 9116181827 और ई-मेल rakesh.jain1@aubank.in प्राधिकृत अधिकारी एयू रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड स्थानः दिल्ली दिनांकः ०२ फरवरी २०२ १

पंजाब नैशनल बैंक 🔘 punjab national bank ...भरोसे का प्रतीक! मंडल कार्यालय— देहरादून ईस्ट, 1, पल्टन बाजार, क्लॉक टॉवर, देहरादून, फोन नं0: 0135—2710107

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी(ओ) / गारन्टर(ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभृति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल / अचल संपत्ति जो प्रतिभृति लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का रचनात्मक / भौतिक / सांकेतिक कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी, बैंक द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी ऋणी(ओ) / गारन्टर(ओं) की बकाया राशि की वसूली हेत् बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मुल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपित्तयों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है।

लॉट सं.	शाखा का नाम खाता का नाम ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम		(ब) अर्नेस्ट मनी (EMD) (स) ईएमडी जमा के अंतिम तिथि	ई—नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदार का ज्ञात प्रभार का विवरण
		सरफेसी एक्ट 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अन्तर्ग	The residence of the latest and the	THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.		
	शाखा: अजबपुर कलां, देहरादून ऋणीः मैसर्स मोनाल बेवरेन्ज प्रोपराइटर श्री रविन्द्र बिष्ट पताः खसरा नं0 429 क लांघा रोड, मौजा छरबा परगना पछवादून, तहसील विकास नगर, जिला-देहरादून	सम्पत्ति नं0 1. वंधक फैक्ट्री भूमि एवं भवन स्थित खाता नं0 811, खसरा नं0 1347/22 नया नं0 429 क माप क्षेत्रफल 380 वर्ग मीटर, रजिस्टर्ड विक्रेय विलेख नं0 1153, बुक नं0 1, पेज नं0 251-266, सम्पत्ति स्वामी श्री रविन्द्र सिंह बिष्ट, स्थित लांघा रोड, मौजा छरबा, तहसील- विकास नगर, जिला- देहरादून। सीमायैं:-ऊत्तरः खाली प्लॉट के बाद अन्य की फैक्ट्री माप 24.45 फीट, दक्षिणः मिनरल वाटर की फैक्ट्री, पूर्वः देशराज का मकान, पश्चिमः 19 फीट चीडा रास्ता के बाद कम्प्यूटर पार्ट की फैक्ट्री। सम्पत्ति नं0 2.मैसर्स मोनाल ब्रेवर्स फैक्ट्री के प्लांट एवं मशीनरी स्थित लांघा रोड, मौजा छरबा, तहसील- विकास नगर, देहरादून।	(ब) रु० <b>94.77</b> लाख (स) 04.10.2016 (द) भौतिक कब्जा	(अ) रू० 30.87 लाख (ब) रू० 3.08 लाख (स) 03.03.2021 को शाम 5.00 बजे तक (द) रू० 0.50 लाख	दोपहर 12:00	

बिक्री सुरक्षा नियम (प्रवर्तन) नियम 2002 और निम्नलिखित शर्तों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी।

 नीलामी की सम्पत्तियों को जहाँ हैं, जैसा है, जो हं के आधार पर बिक्री की जायेगी। 3. अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिय किया गया है, लेकिन प्राधिकत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रटि, गलत बयान या चक के लिए जवाबदेही नहीं होगे।

4. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई—नीलामी के माध्यम से प्लेटफार्म पर उपलब्ध वेबसाइट: www.mstcecommerce.com. पर दिनांक 29.09.2020 को प्रात: 12.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक 5. विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी के लिये आप वेब साईट www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app & www.pnbindia.in पर लॉगिन कर सकते है या नियम व शर्तों की प्रतिलिपि हमारे कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर प्राप्त कर सकते है।

इच्छ्क बोलीदाता किसी भी जानकारी के लिए श्री विनोद चौहान, मो0 नं0 9760026106 से सम्पर्क करे।

सरफेसी ऐक्ट 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना स्थान - देहरादून दिनांकः 02.02.2021

एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: L74899DL1993PLC055768 पंजी. कार्यालयः आर-4, यूनिट नं. 103, 1ला तल, खिड़की एक्स्टेंशन मैन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017

ईमेलः info@alchemist-corp.com | फोनः 011-29544474

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने का अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

स्टैंडएलॉन

							17					
विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त न	गै महीने	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ महीने		समाप्त वर्ष	
	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
	9.0	( अनंकेक्षित )	0 1	( अनंके	क्षित)	( अंकेक्षित )		( अनंकेक्षित )	Y i	( अनंवे	र्हेिशत )	( अंकेक्षित )
प्रचालनों से कुल आय	12.79	6.58	17.61	30.45	29.49	34.24	12.79	6.58	17.61	30.45	29.49	34.24
कर तथा एसोसिएट्स एवं संयुक्त उपक्रमों में (हानि)/लाभ के शेयर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)		(1.37)	7.50	6.46	8.41	4.66	2.88	(1.48)	6.81	6.23	6.51	2.46
कर तथा विशिष्ट मदों के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	2.69	(1.37)	7.50	5.27	8.41	4.24	2.58	(1.48)	6.81	5.04	6.51	2.04
अवधि के लिए कुल व्यापक (हानि)/ आय	2.69	(1.37)	7.50	5.27	8.41	4.24	2.58	(1.48)	6.81	5.04	6.51	2.04
प्रदत्त इक्विटी पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर आरक्षित (अंतिम अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार)						(67.22)						(67.04)
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का ) (वार्षिकीकृत नहीं) मूल तरल	0.05 0.05	(0.03) (0.03)	0.15 0.15	0.11 0.11	0.17 0.17	0.09 0.09	0.05 0.05	(0.03) (0.03)	0.14 0.14	0.10 0.10	0.13 0.13	0.04 0.04
टिप्पणी:												

1. उपरोक्त स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों को उसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमों तथा लागू होने वाली एरिया तक अन्य मान्यता प्राप्त लेखा सिद्धांतों तथा नीतियों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (''इंड एएस'') के अनुसार तैयार किया गया है। 2. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन उपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलॉन एवं समेकित) के

विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलॉन एवं समेकित) का सम्पर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.alchemist-corp.com) पर उपलब्ध है। बोर्ड के आदेश से

एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

www.readwhere.com

For Jauss Polymers Limited Place: Noida Mukesh Kumar Date: 02.02.2021 Company Secretary

तिथि: 2.2.2021 स्थानः नई दिल्ली

**FINANCIAL EXPRESS** 

沙

एन एफ एल

NFL

This is to bring to your notice that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, The 12th day of Feb 2021 at 3:30 P.M. at 1/1 Kirti Nagar, Main Road, New Delhi- 110015, to inter alia, consider and Approve Un-Audited Financial Results for the quarter ended on 31st Dec, 2020. Further, pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the securities of the

Company is already closed till the expiry of 48 hours after the declaration of Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 31st Dec. 2020. For Chamak Holdings Limited

Anubhay Kathuria Managing Director DIN: 01198916 Place: New Delhi

Date: 02.02.2021 **OROSIL SMITHS INDIA** 



Regd. Office: Flat No. 620, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi 110019 Phone No.: 0120-4125476, Email Id.: info@orosil.com Website: www.orosil.com

NOTICE In compliance with Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, this is to inform that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 12th February, 2021 at 03:00 P.M. at the Corporate Office of the Company at A-89 Sector 2, Noida- 201301, inter alia, to

The said notice may be accessed on the Company's website www.orosil.com and on the stock exchange website at www.bseindia.com.

consider and approve the unaudited

financial results of the Company for the

quarter and nine months ended 31st

December, 2020 and any other item with

the permission of the Chair.

By Order of the Board For Orosil Smiths India Ltd Sd/ B.K. Narula Place: New Delhi (Managing Director) Date: 02.02.2021 DIN: 00003629 NEW ERA LEASING AND FINANCE

LIMITED Regd. Office: 981, Aggarwal Millenium, Tower -II, Netaji Subhash Place, District

Centre, Wazirpur, Opp. TV Tower, Pitampura, New Delhi - 110034 **Tel No**: 011-69999350 CIN: L67120DL1984PLC018800 Email ID: neweraleasingfinance@gmail.com

**Website**: www.neweraleasingfinance.com ADVANCE INTIMATION OF BOARD MEETING Notice is hereby given pursuant to Regulation

47(1) (a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of New Era Leasing and Finance Limited ("the Company") is scheduled to be held on Thursday,11th day of February, 2021 at 04:00 P.M at the Registered Office of the Company situated at 981. Aggarwal Millenium, Tower-II Netaji Subhash Place, District Centre Wazirpur, Opp. TV Tower, Pitampura, Delhi-110034 inter alia, to consider, approve and take on record the Un-Audited Financia Results along with Limited Review Report of the Company for the Quarter and Nine Months ended 31st December 2020.

Date: 02.02.2021

Place: New Delh

same.

1.Furniture & Fixture:-

Bed, LED Lights etc.)

2.Vehicles:-

.Cassette AC 3Ton (QTY- 11)

II.Ducted AC 3.5 Ton (QTY -2)

III.Split AC 1.5 Ton (QTY -2)

IV.Split AC 1 Ton (QTY - 1)

VI.Water Gevser-25Ltr (QTY-6)

Reg. No. DL 12CB 5194

Reg. No. DL 4CNÈ 7314

I.One SUV Car (Ford - Eco-sports - 2015)

II.One Sedan Car (Toyota - Corola Altis - 2011)

Terms and Condition of the E-auction are as under

which shall be subject to approval by the Liquidator.

only and will not be issued in any other name.

Date: 03.02.2021

Place: Gurugram

assessment charges, fees etc. in respect of the assets put on auction.

auction process after the consultation with the stakeholders.

For New Era Leasing and Finance Limited Ras Bihari Sharma

(Managing Director)

Place: New Delhi **DIN:**06804500 'Form No. INC-25A' Advertisement to be published in the

Date: 03.02.2021

newspaper for Conversion of Public Company into a Private Company Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region. New Delhi n the matter of the Section 14 of the Companies Act,

2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter o **SPACE TELELINK LIMITED** (CIN:U64200DL2009PLC190648)

having its Registered Office at 22A, J.L.G House, JANPATH, **NEW DELHI-110001** NOTICE is hereby given to the General Public

that the company is intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of Converting itself into a Private Limited company n terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting held on 31s December, 2020 to enable the company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be

affected by the proposed change of status of the company, may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2<sup>nd</sup> Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its Registered Office address mentioned below:

22A, J.L.G House, JANPATH, **NEW DELHI-110001** For & on behalf of Applicant SPACE TELELINK LIMITED

Sd/-ANKIT GOEL Managing Director Date: 02.02.2021 DIN: 02605262

Form No. INC-26 (Pursuant to Rule 30 of the Companies **Before the Central Government** Regional Director, Northern Region, New Delhi

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies

(Incorporation) Rules, 2014 AND In the matter of **BLUE PLANET PROJECTS** 

PRIVATE LIMITED (CIN: U40106DL2012PTC233174) having its Registered Office at H. NO. D-137, VIJAY VIHAR PHASE- 2,

**NEAR ROHINI SECTOR- 4, DELHI-110085** .......Applicant Company / Petitioner **NOTICE** is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking

confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 27th January, 2021 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the

registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor. Pandit Deendaval Antvodava Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at

the address mentioned below:-H. NO. D-137, VIJAY VIHAR PHASE- 2, **NEAR ROHINI SECTOR- 4, DELHI-110085** For & on behalf of Applican BLUE PLANET PROJECTS PRIVATE LIMITED

**SWADESH BAGHEL** (DIRFCTOR) Date: 03.02.2021 DIN: 05154700 Place: Delhi

financialexp.epapr.in

## NATIONAL FERTILIZERS LIMITED

(A Govt. of India Undertaking) CIN: L74899DL1974G0I007417 Registered Office: SCOPE Complex, Core-III, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003, Website:http://www.nationalfertilizers.com

## Notice is hereby given that in compliance with Regulation 47 read with

Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of Board of Directors of National Fertilizers Limited is scheduled to be held at Noida (Uttar Pradesh) on Friday, 12" February, 2021, inter-alia to consider, approve and take on record the Un-Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the guarter ended 31st December. 2020, after these results are reviewed by the Audit Committee of the Pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015

as amended and the circular issued by National Stock Exchanges of India Ltd. Vide NSE/CML/2019/11 dated 2<sup>rd</sup> April, 2019, the trading window for dealing in the shares of the Company shall remain closed from 1" January, 2021 till 48 hours after the declaration of Un-Audited Financial Results(Standalone and Consolidated) for the quarter ended 31" December, 2020 i.e. 14" February, 2021 for Designated Persons. Designated Employees and their Immediate relatives.

www.nationalfertilizers.com and on the BSE/NSE website www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Sd/-Place: New Delhi (Ashok Jha)

The said Notice may be accessed on the Company's website

Date: 01.02.2021 Company Secretary NFL: FARMER'S FRIEND, NATION'S PRIDE

PRABHAT SECURITIES LIMITED CIN: L22022UP1982PLC005759

NOTICE

R/O:118/610 A, Kaushalpuri-208012. Ph: 512-2526347 E Mail: prabhatsecurities@gmail.com, Website: www.prabhatsecuritiesItd.com

Pursuant to Regulation 29 read wit regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (LODR Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that (07/2020) Board Meeting of the Company is scheduled to be held at its Regd, Office, Kanpur on Friday, 12" February, 2020 at 12:15 P.M. inter alia to consider and approve the Un-Audited Financial Statements of the Company for the quarter ended 31 December, 2020 The trading window in respect of Company's securities shall open after 48 hours of declaration of financia results of the Company for the Quarter ended on 31 December, 2020. The said Notice may be accessed the Company's website a http://www.prabhatsecuritiesltd.com

india.com & http://www.msei.in. For Prabhat Securities Limited Ramakant Kushwaha --sd----Place: Kanpur

Date: 02.02.2021 (Managing Director)

and may also be accessed at CSE &

MSEI website at http://www.cse-

### Akashdeep Metal Industries Limited

CIN: L28998DL1983PLC017150 Registered Office: 14, Dayanand Vihar, Backside Ground Floor, Vikas Marg Extn., East Delhi -110092 Tel: +91-11-43011038, Email: info.akashdeep14@gmail.com Website: www.akashdeepmetal.in

NOTICE otice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of th

Company is scheduled to be held on **Thursday, February 11, 202**′ <mark>at</mark> 14, Dayanand Vihar, Backside, Ground Floor, Vikas Marg Extn Delhi-110092, *inter alia* to consider and approve, the Unaudite<mark>d</mark> <mark>St</mark>andalone and Consolidated Financial Results of the Company f<mark>o</mark> <mark>th</mark>e Quarter and Nine Months ended 31<sup>st</sup> December, 2020. This Notice is also available on the website of the Stock Exchange

where the Shares of the Company are listed i.e., www.bseindia.co<mark>n</mark> and on Company's website www.akashdeepmetal.in)

For Akashdeep Metal Industries Limited (Sd/-)

Rajesh Guptal Managing Director DIN: 00006056

#### IMPORTANT

advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with

advertisers or otherwise acting on advertisement in any manner whatsoever.

## **ALCHEMIST CORPORATION LIMITED**

Place : Delhi

Date : 02/02/2021

CIN: L74899DL1993PLC055768 Regd. Office: R-4, Unit No-103, Ist Floor, Khirki Extension Main Road, Malviya Nagar, New Delhi-110017

Email: info@alchemist-corp.com | Phone: 011-29544474

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31,2020

Particulars			STAND	ALONE		er	CONSOLIDATED					
		Quarter Ended	1.	Nine Months Ended Year Ended		Year Ended	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
ll .		(Un-Audited)		(Un-Audited) (Audited)		(Un-Audited)			(Un-Audited)		(Audited)	
Total income from operations	12.79	6.58	17.61	30.45	29.49	34.24	12.79	6.58	17.61	30.45	29.49	34.24
Net Profit/(Loss) before tax and share of (Loss)/profit in associates & Joint ventures	2.99	(1.37)	7.50	6.46	8.41	4.66	2.88	(1.48)	6.81	6.23	6.51	2.46
Net Profit/(Loss) for the period after tax and exceptional items	2.69	(1.37)	7.50	5.27	8.41	4.24	2.58	(1.48)	6.81	5.04	6.51	2.04
Total Comprehensive (loss) / Income for the period	2.69	(1.37)	7.50	5.27	8.41	4.24	2.58	(1.48)	6.81	5.04	6.51	2.04
Paid up Equity Capital (Face value of Rs. 10/- each)	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43	491.43
Reserve excluding revaluation reserves (As per last audited Balance Sheet)						(67.22)						(67.04)
Earning Per Share (of Rs.10/- each) (not annualised) Basic Diluted	0.05 0.05	(0.03) (0.03)	0.15 0.15	0.11 0.11	0.17 0.17	0.09 0.09	0.05 0.05	(0.03) (0.03)	0.14 0.14	0.10 0.10	0.13 0.13	0.04

Notes: The above Standalone and Consolidated Financial Statement, prepared in accordance with Indian Accounting Statndards ("Ind AS") as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and nine months ended on 31st December, 2020 filed with the Stock Exchange under the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Un-audited Financial Results (Standalone and Consildatted) for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 are available on stock exchange websites (www.bseindia.com) and on the company's website (www.alchemist-corp.com). By the order of the Board

Dated- 18.01.2021

Davp/15403/11/0006/2021

**EMD** 

**Amount** 

(In Rs.)

0.50

(In Lakhs)

Incrementa

Value

(In Rs.)

30

Thousand

٥

0

m

4

۳

CORRIGENDUM

**OFFICE OF THE** 

**COMMISSIONER OF INCOME TAX (JUDICIAL)** 

**ROOM NO. 162-A, C.R. BUILDING, NEW DELHI** 

Phone & Fax: 23379308,

Email: delhi.cit.judicial@incometax.gov.in

NOTICE REGARDING HEARING OF CASES IN NCLT MATTERS

This is with reference to the advertisment carried in The Financial Express Delhi

Edition on 01.02.2021. In S.no.26 under Sub title (Case Number and Case Tiltle)

Appeal No. 363/252/ND/2020, Income Tax Officer Ward 25(3) Vs ROC & M/s. (Towering

Homes Pvt. Ltd.) to be read as Appeal No. 363/252/ND/2020, Income Tax Officer Ward

25(3) Vs ROC & M/s.Timebound Realcon Pvt Ltd. All other contents remains the

SALE NOTICE

**AFFINITY BEAUTY SALON PRIVATE LIMITED** 

(In Liquidation)Liquidator: Mr. Rohit Sehgal

Registered Office: C-25 Green Park, Main Market, New Delhi, Delhi 110006

Email ID: rp.affinitysalon@gmail.com; rohit.sehgal@aaainsolvency.com

Contact Number: 7011568767 (Mr.Rahul Nagar)

E-Auction Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Date and Time of E-Auction:26<sup>th</sup>February, 2021 at 3.00 pm to 5.00 pm

(With unlimited extension of 5 minutes each)

1.E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through approved

2.The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e- auction Bid Form, Declaration and

Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website

https://ncltauction.auctiontiger.net Contact: Mr. Ram Sharma at +91-6351896834/079-61200584 & 6351896834

ramprasad@auctiontiger.net/ neha. Gyani@ auctiontiger.net/support@auctiontiger.net (On going to the link

https://ncltauction.auctiontiger.net interested bidders will have to search for the mentioned company by using either one

3.The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent inquiries regarding the Assets, if any and inspect

the property at their own expenses and satisfy themselves. The assets mentioned above can be inspected by the prospective bidder

4.The intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) amount either through DD/NEFT/RTGS in the

Account of "AFFINITY BEAUTY SALON PRIVATE LIMITED IN LIQUIDATION", Account No.: 50200052779968, HDFC Bank

Branch: The Peach Tree, C-Block , Sushant Lok-1 , Gurugram-122002, IFSC Code: HDFC0002686, or through DD drawn on any

Scheduled Bank in the name of "AFFINITY BEAUTY SALON PRIVATE LIMITED IN LIQUIDATION" or give a Bank Guarantee for the

5. The intending bidder should submit the evidence for EMD Deposit or Bank Guarantee and Request Letter for participation in the E-Auction along

with Self attested copy of (1) Proof of Identification (2) Current Address-Proof (3) PAN card (4) Valid e-mail ID (5) Landline and Mobile Phone

number (6) Affidavit and Undertaking, as per Annexure 1 (7) Bid Application Form as per Annexure II (8) Declaration by Bidder, as per Annexure III,

the LOI by the Liquidator. Default in deposit of the balance amount by the successful bidder within the time limit as mentioned in the

9.The Successful Bidder shall bear the applicable stamp duties/transfer charge, fees etc. and all the local taxes, duties, rates

10. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-Auction or withdraw

11.After payment of the entire sale consideration, the sale certificate/agreement will be issued in the name of the successful bidde

13.If in case, not more than one bidder deposits the EMD, then in that case the Liquidator will have the absolute power to cancel the

The interested Bidder(s) shall be provided access to the data room ("Data Room") established and maintained by the Compan

acting through the Liquidator in order to conduct a due diligence of the business and operations of the Company. The interested

bidder(s) shall be provided access to the information in the Data Room until the E- Auction Date. The access to, and usage of the

14.Data Room by the interested bidder(s) shall be in accordance with the rules as may be set forth by the Liquidator from time to time

12. The sale shall be subject to provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and regulations made thereunder.

15.E- auction date & Time: 26th February, 2021 from 3.00 p.m. to 5.00 p.m. (with unlimited extension of 5minutes)

documents along with the EMD submission details on https://ncltauction.auctiontiger.net before 5:00 PM of 24 February, 2021.

LOI would entail forfeiture of the entire amount deposited (EMD + Any Other Amount) by the Successful Bidder.

of the two options, (i)Company's name (Affinity Beauty Salon Private Limited), or by, (ii) State and property type).

at the location (as above mentioned) with prior appointment, contacting Mr. Rahul Nagar: +91-7011568767.

EMD Amount as per Format A or Format B as given in the Complete E-Auction process document.

Thee-auction service provider (Auction tiger) will provide User id and password by email to eligible bidders.

any asset thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof.

**Block** 

Price

(In Rs.)

10.46

(In Lakhs)

F.No. CIT (Judl.)/NCLT Matter/2020-21/2089

**Asset** 

V.Salon Furniture (Table, Chairs, Sofa, Shampoo Station, Massage

service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger).

For Alchemist Corporation Ltd.

Sohan Lal

DIN: 3322557

(Managing Director)

#### F MEC INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LIMITED CIN: L65100DL1993PLC053936

Regd. Office: Ind Floor, Central Bank Building 13-B, Netaji Subhash Marg, Daryagani, Delhi- 110002 Email: fmecinternational@gmail.com Website: www.fmecinternational.com

Pursuant to Regulation 29(1)(a)read with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the 4<sup>™</sup> meeting of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2020-21 is scheduled to be held on Thursday, 11" day of February 2021 at 05:00 P.M.at the Registered Office of the Company at IInd Floor, Central Bank Building 13-B, Netaji Subhash Marg, Daryagani, Delhi- 110002 to consider and approve, amongst other items of Agenda, , the Un-Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company including the Limited Review Report of Auditor for the Quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2020.

Further, it is to be noted that in accordance with the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and the Company's code of conduct for Prevention of Insider Trading and in reference to the BSE circulars no. LIST/COMP/01/2019-20 dated April 02, 2019 issued by BSE Limited in compliance with amended SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the "Trading Window" for dealing in the securities of the Company has already closed from 1" Day of January, 2021 till Declaration of the Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter ended 31" December 2020 for Directors/ Officers/Employees of the Company along with Designated Persons and their immediate relatives. The trading window shall re-open from 14" day of February, 2021.

This information is also available on the website of the Company i.e www.fmecinternational@gmail.com and on the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com. For F MEC INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

APOORVE BANSAL Place: Delhi

Date: 02.02.2021

**Managing Director** DIN: 08052540

#### **JAYPEE INFRATECH LIMITED** CIN: L45203UP2007PLC033119

Regd. Office: Sector -128, Noida-201304, U.P. Tel.: +91(120) 4609000, Fax: +91(120) 4963122

Website: www.jaypeeinfratech.com, Email: jpinfratech.investor@jalindia.co.in

## NOTICE

In terms of Regulation 29 and 47 of Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31" December, 2020 will be considered and disseminated on Thursday, the 11th February, 2021.

Further details may be accessed on the Company's Website i.e. www.jaypeeinfratech.com and may also be accessed on the Stock Exchange's Websites at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For JAYPEE INFRATECH LIMITED Surender Kumar Mata

Addl. General Manager Place : Noida & Company Secretary Date: 2" February, 2021 ACS-7762

BHILWARA TECHNICAL TEXTILES LIMITED CIN: L18101RJ2007PLC025502 Registered Office: LNJ Nagar, Mordi,

Banswara - 327001, Rajasthan Phone:+91-2961-231251-52, 231385

Corporate Office: Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida-201301, (U.P)

Phone: +91-120-4390300 (EPABX), Fax: +91-120-4277841 E-mail: bttl.investor@Injbhilwara.com; Website: www.bttl.co.in NOTICE

given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 10th day of February, 2021 at Corporate Office of the Company at Noida, to consider and approve the Un-audited Financial Results for the guarter and nine months ended the 31st December, 2020. Investors may visit the website of the Company (www.bttl.co.in) and

Stock Exchange (www.bseindia.com) for details of Board Meeting. Pursuant to the Code of conduct for Regulation, Monitoring

(Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 as amended, the trading window of the Company for the purpose of trading in the securities of the Company by its insiders and their immediate relative shall remain closed from the end of the every guarter till 48 (forty eight) hours after announcement of financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020. Accordingly the period of closure of trading window for dealing in Shares of the Company had already been in operation with effect from 1st January, 2021 Please note that the re-opening of trading window for dealing in the Shares of the Company will be effective from 13th February, 2021.

> For Bhilwara Technical Textiles Limited Sd/-Arjun Sharma

ACS: 47848 Place: Faridabad

JAUSS POLYMERS LIMITED CIN: L74899HR1987PLC066065 Registered Office: Plot No. - 51, Roz Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Gurugram

122103 (Haryana) Website: www.jausspolymers.com, Email.: response@jausspolymers.com Tele. No.: 0120-7195236-239.

ursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing bligations and Disclosure Requirements) gulations, 2015, please be informed that feeting of Board of Director of the Company will be held at 801-802, 8th Floor, Tower-2, Assotech Business Cresterra, Plot No. 22, Sector 135, Noida-201301 on Thursday, the 11th day of February, 2021 inter-alia, to consider and approve the following:

To consider and approve the standalone and consolidated Un-audited Financial Results for the guarter and nine months ended on 31st December, 2020. To consider and take note of Limited review

report of Statutory Auditor on standalone and consolidated Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31st December. To consider and approve any other agenda

item as place on Board. Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading)

Regulations, 2015 and as per the BSE circular LIST/COMP/01/2019-20 dated April 2, 2019, the Trading Window for the securities of the Company has already been closed from January , 2021 till 48 hour after the declaration of unaudited Financial Results. For Jauss Polymers Limited

Place: Noida Mukesh Kumar Date: 02.02.2021 Company Secretary

Date: 03.02.2021

Place: New Delhi

Registered Office: Plot No. - 51, Roz Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Gurugram 122103 (Haryana) Website: www.itplgroup.com, Email.: grievence@itplgroup.com Tele. No.: 0120-7195236-239,

Regulations, 2015, please be informed that Meeting of Board of Director of the Company will be held at 803-805, 8th Floor, Tower-2, Assotech Business Cresterra, Plot No. 22, Sector 135, Noida-201301 on Thursday, the 11th day of February, 2021 inter-alia, to consider and approve the following: To consider and approve the standalone

Results for the quarter and nine months ended on 31st December, 2020.

December, 2020. To consider and approve any other

LIST/COMP/01/2019-20 dated April 2, 2019 the Trading Window for the securities of the Company has already been closed from January 1, 2021 till 48 hour after the declaration of un-audited Financial Results. For Innovative Tech Pack Limited

Form No. INC-25A

Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company Before the Regional Director Ministry of Corporate Affairs Northern

In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of M/s .PASA CREDIT AND INVESTMENT LIMITED having its registered office.

at AT HOUSE NO. 31, BLOCK-A, PKT-3 SECTOR-3, ROHINI, NEW DELHI - 110085 Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 25th December 2020 to enable the company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Northern Regional Director at B-2 WING, 2nd FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI - 110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

For and on behalf of the Applicant Varun Gupta, DIN: 00125553 HOUSE NO.31, BLOCK-A, PKT-3 SECTOR-3, ROHINI, NEW DELHI - 110085

ADVIK CAPITAL LIMITED CIN: L65100DL1985PLC022505

Email: cs@advikgroup.com, info@advikgroup.com, Website: www.advikgroup.com/ail Regd. Office: Plot No. 84, Khasra No. 143/84, Ground Floor, Extended Lal Dora, Kanjhawla, Delhi - 110081 NOTICE

Pursuant to Regulation 29(1)(a)read with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of

India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, Notice is hereby

given that the 4" meeting of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2020-2021 is scheduled to be held on Thursday, 11° day of February, 2021 at 03:30 P.M. at the Registered Office of the Company at Plot No.84, Khasra No. 143/84, Ground Floor, Extended Lal Dora, Kanihawla, Delhi - 110081 to consider and approve, amongst other items of Agenda, , the Un-Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company including the Limited Review Report of Auditor for the Quarter ended 31st December, 2020. Further, it is to be noted that in accordance with the provisions of SEBI (Prohibition of nsider Trading) Regulation, 2015 and the Company's code of conduct for Prevention of insider Trading, and in reference to the BSE circulars no. LIST/COMP/01/2019-20 dated Insider Trading) Regulations, 2015 the "Trading Window" for dealing in the securities of the

April 02, 2019 issued by BSE Limited in compliance with amended SEBI (Prohibition of Company has already closed from 1" Day of January 2021, till Declaration of the Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter ended 31" December 2020 for Directors/ Officers/Employees of the Company along with Designated Persons and their mmediate relatives. The trading window shall re-open from 14" day of February, 2021. This information is also available on the website of the Company i.e. www.advikgroup.com and on the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com.

For ADVIK CAPITAL LIMITED

Variation for

Place: New Delhi Date: 02.02.2021

Virender Kumar Agarwal Managing Director cum Compliance officer DIN:00531255



## **ESCORTS LIMITED**

Regd. Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad - 121003, Haryana | Phone: 0129-2250222 E-mail: corpsi@escorts.co.in | Website: www.escortsgroup.com | (CIN - L74899HR1944PLC039088)

Statement of Deviation/Variation in utilization of funds raised under preferential issue-Published pursuant to Regulation 32 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Name of Listed Entity Escorts Limited Mode of Fund Raising Preferential Issue Date of Raising Funds July 16, 2020 Amount Raised (in Crores) Rs. 1041.903 Crores Report filed for the Quarter ended December 31, 2020 Not Applicable Monitoring Agency Monitoring Agency Name, if applicable Not Applicable Is there a Deviation/Variation in use of funds raised Not Applicable If yes, whether the same is pursuant to change in terms of a contract or objects, which was approved by the

If yes, Date of shareholder Approval Not Applicable Explanation for the Deviation/Variation Not Applicable Comments of the Audit Committee after review No Comments

Not Applicable Comments of the auditors, if any Objects for which funds have been raised and where there has been a deviation, in the following table Sr. Original Object Modified Original Modified Funds Amount of Remarks. allocation, Utilised Deviation/ Object, if Allocation

					the quarter according to applicable object	
1	For the Agri Machinery Business of the Company i.e. the business of manufacturing, assembly, sales, marketing, financing, servicing, research and development of: (a) tractors; (b) construction equipment (i.e., backhoe loaders and other items to be mutually agreed between Promoters and Kubota Corporation); (c) implements; (d) transmission for tractors, construction	Rs.1041.903 crores	200	Rs.90 crores	NIL	

 (a) Deviation in the objects or purposes for which the funds have been raised or (b) Deviation in the amount of funds actually utilized against what was originally

(c) Change in terms of a Contract referred to in the fund raising document i.e.

For Escorts Limited

Satyendra Chauhan Company Secretary & Compliance Officer

# ┍ 0

# 6 0 N ₹ 0

#### the formats of these Annexure can be taken from the Complete E-Auction process document. These documents should reach the office of the liquidator or by E-mail, at the address given below before 7:00 PM of 24th February, 2021. Interested bidders will have to upload their KYC 6.The Name of the Eligible Bidders will be identified by the Liquidator to participate in e-auction on the portal (https://ncltauction.auctiontiger.net 7. In case, a bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-auction, the closing time will automatically get extended for minutes with unlimited extension. The bidder who submits the highest bid amount (not below the reserve price) on closure of e-Auction process shall be declared as the Successful Bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode 8. The EMD of the Successful Bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The EMD shall not bear any interest. The Liquidator will issue a Letter of Intent (LOI) to the Successful Bidder and the Successful Bidder shall have to deposit the balance amount (Successful Bid Amount EMD Amount) within 30 days on issuance of

0

Rohit Sehga

Affinity Beauty Salon Private Limited in Liquidation

Email ID:rohit.sehgal@aaainsolvency.con

IBBI Rean. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00528/2017-2018/10953

Address: A-604, Sujjan Vihar, Sector-43, Gurugram, Haryana, 122002

Liquidato

Date: 2nd February, 2021

Place: Noida (U.P.)

Pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, notice is hereby

& Reporting Trading by Insiders of the Company under SEBI

By order of the Board of Directors

Company Secretary & CFO

equipment (i.e.,

mutually agreed between the Promoters and Kubota Corporation) and implements; and (e) spare parts of the items

> manufacture of engines by the Company. Deviation or variation could mean:

backhoe loaders and

referred in (a), (b), (c)

and (d), and for the

other items to be

prospectus, letter of offer, etc.

Date: February 2, 2021

Innovative Tech Pack Limited CIN: L74999HR1989PLC032412

NOTICE Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

and consolidated Un-audited Financial

To consider and take note of Limited review report of Statutory Auditor on standalone and consolidated Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31st

agenda item as place on Board. Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and as per the BSE circular

Place: Noida Vishesh Chaturvedi Company Secretary Date: 02.02.2021